

## मुद्रास्फीतनियंत्रण पर फोकस

**स्रोत: द हंडू**

**भारतीय रजिस्टर बैंक (RBI)** की **मौद्रकी नीतिसमिति** (Monetary Policy Committee- MPC) ने **मुद्रास्फीति** को 4% लक्ष्य के साथ संरेखति करने के लिये फरवरी 2024 में भी रेपो दर को 6.5% पर अपरविरति रखा है।

- MPC का उद्देश्य +/- 2% के बैंड के भीतर 4% मुद्रास्फीति का मध्यम अवधिका लक्ष्य हासलि करना है।
- MPC ने नभाव (Accommodation) को वापस लेने पर ध्यान केंद्रति रखने का भी नियंत्रण लिया ताकि यह सुनिश्चिति कथिा जा सके कि मुद्रास्फीतिउत्तरोत्तर संवृद्धिको समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के साथ संरेखति हो।
  - उदार रुख़ का मतलब है कि केंद्रीय बैंक आरथकि वकिास को बढ़ावा देने के लिये मुद्रा आपूरति का वसितार करने के लिये तैयार है।
  - नभाव को वापस लेने का मतलब प्रणाली में धन की आपूरति को कम करना होगा जो मुद्रास्फीति पर और लगाम लगाएगा।
- RBI के एक हालयि, वक्तव्य में कहा गया है कि दिसिंबर 2023 में हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़कर 5.7% हो गई, जो मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति से प्रेरित है और नरितर सत्रकता की आवश्यकता पर बल देती है।
- MPC मुद्रास्फीतिलिक्ष्य हासलि करने के लिये आवश्यक नीतिगत ब्याज दर नियंत्रिति करती है। RBI मौद्रकी नीतिकी वभिन्न लिखितों को नियोजिति करके मुद्रास्फीति और अपस्फीतिको नियंत्रिति करता है जैसे:
  - रेपो दर, रविस्स रेपो दर, बैंक दर, खुला बाजार परचियालन, सांवधिकि तरलता अनुपात (SLR), नकद आरक्षति अनुपात (CRR), चलनधिसमायोजन सुवधि (LAF) और बाजार स्थरीकरण योजना।

# मौद्रिक नीति की मात्रात्मक लिखतें

## QUANTITATIVE INSTRUMENTS OF MONETARY POLICY



### ₹ चलनिधि समायोजन सुविधा ( LAF )

- ④ रेपो दर ( RR ): वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। यहाँ, RBI प्रतिभूतियों की खरीद करता है।
- ④ रिवर्स रेपो दर: वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। रेपो दर के विपरीत।
- ④ यदि RBI सख्त मौद्रिक नीति का संकेत देना चाहता है, तो वह रेपो दर में वृद्धि करेगा; बैंक अपनी उधारी दरों में वृद्धि करेंगे।

### ₹ % बैंक दर

- ④ यह एक दीर्घकालिक दर है (रेपो दर अल्पकालिक है) जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को धन उधार देता है।
- ④ बैंक दर में वृद्धि से ऋण/जमा पर ब्याज दरों में वृद्धि होगी और इसी तरह इसमें कमी से ऋण/जमा पर ब्याज दरों में कटौती होगी।

### ₹ सांविधिक चलनिधि अनुपात ( SLR )

- ④ SLR जमाओं की न्यूनतम हिस्सेदारी है जो वाणिज्यिक बैंकों को अभारित सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी एवं स्वर्ण जैसी सुरक्षित व चल आस्तियों में रखना होता है।
- ④ यदि RBI मौद्रिक नीति को सख्त करना चाहता है, तो वह SLR में वृद्धि करेगा।

### ₹ नकद आरक्षित अनुपात ( CRR )

- ④ बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा RBI के पास नकदी के रूप में रखना आवश्यक है।
- ④ CRR में वृद्धि के साथ ही बैंक ऋण की दरों में वृद्धि कर देते हैं।

### ₹ खुला बाजार परिचालन (OMOs)

- ④ इनमें बैंकिंग प्रणाली में टिकाऊ चलनिधि को इंजेक्ट/अवशोषित करने के लिये रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद/बिक्री शामिल है।



Drishti IAS

और पढ़ें: [RBI ने नीतिगत दरें अप्रविरक्ति](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtilas.com/hindi/printpdf/focus-on-inflation-control>

